

## Point of Order under Rule 362

**SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA):** Sir, I am raising a Point of Order.

माननीय अध्यक्ष : आप किस नियम के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं?

? (व्यवधान)

**SHRI K. C. VENUGOPAL:** Sir, I am raising a Point of Order under Rule 352.

माननीय अध्यक्ष : नियम 352 तो मुझे मुंहजबानी याद हो गया है ।

? (व्यवधान)

**SHRI K. C. VENUGOPAL:** Sir, while our hon. Member, Channi ji was speaking, he was speaking about general politics. At that point of time, the MoS from the Treasury Benches intervened. Hon. Chair allowed him to intervene. That is okay. But while intervening, he personally made allegations against the hon. Member, Shri Channi. As per Rule 352, is it applicable? It is clearly against the rules. A Minister is violating the rule. And that Minister even crossed the border. He tried to attack the Members. How can a Minister attack a Member? This is actually against the customs, conventions, and decorum of this House. You are the person responsible to maintain the decorum of the House. We need an action. He has to apologise.

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी भी यहां विराजे हैं । रक्षा मंत्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं ।

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीचेस को उठाकर देख लें कि किसने क्या बोला है । यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, तो उसे सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाए । हम सब पूरे सदन में शांति बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्यवाही चले ।

माननीय अध्यक्ष : एक और विषय होना चाहिए । आज तय हो जाना चाहिए । चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, आप सब वेल में न आए ।

? (व्यवधान)

श्री बी. मणिकम टैगोर (विरूधुनगर) : महोदय, पहले मंत्री आए थे ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट के लिए रुक जाइए । मैं जो कह रहा हूं, आप पहले मेरी बात सुनिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उपनेता ने कहा है, चैंबर में भी कहा और यहां पर भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है और सार्वजनिक रूप से भी कहा है, कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो या उस दल का हो, मैंने माननीय मंत्री जी के लिए तो विशेष रूप से बता दिया है ।

हम सदन की गरिमा को कम न करें, ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा कम न हो । कुछ भी टिप्पणी करना हो, कोई विषय है, तो आप चैंबर में आकर मुझसे मिलिए । आप विषय बताइए । आगे उस विषय पर सार्वजनिक रूप से बात करेंगे । चैंबर में भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे, लेकिन हमें यह मर्यादा बनाए रखनी चाहिए । वह रिकॉर्ड में भी नहीं जाता है, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है । कई माननीय सदस्य कुछ भी टिप्पणी करते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको किसने बोलने की इजाजत दी है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य आसन के बारे में कुछ भी अनरिकॉर्डेड बोल देता है । अगर रिकॉर्डेड बोला होता, तो मैं एक्शन जरूर लेता । किसी भी सूरत में आसन के लिए रिकॉर्ड में कुछ बोलेंगे, तो मैं कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन अनरिकॉर्डेड बोल देते हैं । मैं भी कोशिश करूंगा और आसन पर बैठने वाले सभापति तालिका के सभी सदस्य भी यही कोशिश करेंगे ।

सभापति तालिका पर सब दल के लोग बैठते हैं । जब सब दल के लोग सभापति तालिका पर बैठते हैं तो वे वैसे ही मर्यादा रखते हैं, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों । किसी भी दल का सदस्य हो, लेकिन जब वह सभापति तालिका पर बैठता है तो वह उसकी उतनी ही मर्यादा रखता है । यह अपेक्षा है कि हम भी इसका ध्यान रखें ।

श्री सुनील तटकरे जी ।

-

-

**INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

[www.sansad.in/ls](http://www.sansad.in/ls)

### **LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

---

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Seventeenth Edition)

---

---

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

\* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

\* Expunged as ordered by the Chair.

\* Expunged as ordered by the Chair.

\* Expunged as ordered by the Chair.

\* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

\* Not recorded.

\* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

\* Expunged as ordered by the Chair.

\*?\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil.

\*? \* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil.

\*?\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil.

\*?\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil.

\*?\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil.

\*?\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Tamil.

\* ? \* English translation of this part of the speech was originally delivered in Telugu.

\*\* Not recorded.

\* Not recorded as ordered by the Chair.

\*?\* English translation of this part of the speech was originally delivered in Marathi.

\* Not recorded.